

**Repairs of National Highway Nos 5 and 42**

**3363 SHRI PADAMCHARAN SAMANTASINHERA.** Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state

(a) whether it is a fact that Orissa Government has been representing for special repairs of National Highway Nos 5 and 42,

(b) if so when and what is the total amount involved,

(c) what action has been taken upto date, and

(d) the amounts provided to special repairs of National Highway during the last three years, yearwise?

**THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM)** (a) to (c) Five estimates for special repairs to National Highway No 5 and National Highway No 42 (Roads and Bridges) aggregating Rs 11 121 lakhs were received from the Government of Orissa. Out of these 2 estimates amounting to Rs 110 lakhs have already been approved. Two estimates amounting to Rs 406 lakhs have been returned to the State Government unapproved for the reason that the items of work covered thereby have not been considered urgent/have already been provided for in the related revised original estimate sanctioned recently. The final view in regard to the 5th estimate amounting to Rs 5 958 lakhs has not yet been taken.

(d)

1975-76 Rs 10 98 lakhs

1976 77 Rs 15 74 lakhs

1977 78 Rs 9 78 lakhs

**Supply of Power to Industries in M.P.**

**3364 SHRI RAJ KESHAR SINGH** Will the Minister of ENERGY be pleased to state

(a) whether his attention has been drawn towards news item entitled

'Power cut hits M.P textile units' published in the National Herald dated the 19th July, 1978;

(b) if so, reasons for the power crisis,

(c) value of production loss suffered due to power cut, and

(d) the steps taken to ensure regular and sufficient power to the industries in M.P in future?

**THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P RAMACHANDRAN)** (a) Yes, Sir

(b) Main reason for lower generation of energy during first half of July 1978 has been the increased forced outages of thermal generating units

(c) Although shortfall in power availability does affect production, it is not possible to estimate the value of product on loss suffered due to power shortage as there are number of other factors like availability of raw materials labour situation etc. which also affect production

(d) The power availability position in the State improved with the re-commissioning of the thermal units during 2nd half of July 1978. Steps are also being taken to increase power availability by maximising generation from the existing power stations by improving their performance and by addition of new generation capacity. A 200 MW unit is scheduled to be commissioned at Satpura TP Station during the current year.

**दूरदर्शन केन्द्र ने इचकों को आयोजित करने के लिए मानवण्ड**

3365 श्री नवल सिंह चौहान क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(1) दिल्ली के दूरदर्शन केन्द्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन कौन से इचक आयोजित किए गए

(2) दूरदर्शन केन्द्र ने इचकों को आयोजित करने का क्या मानवण्ड

(ग) अन्य प्रगतिशील कृषकों को आमन्त्रित न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस मामले की जांच करने के लिए सरकार का विचार संसद सदस्यों की एक समिति गठित करने का है ; और

(ङ) कृषक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों की शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं और वे कितने समय से यह कार्य कर रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** (क) जुलाई, 1975 से जुलाई, 1978 तक की अवधि के दौरान आमन्त्रित किए गए कृषकों का व्योरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । [अध्यालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—2612/78]

(ख) और (ग). भाग लेने वाले व्यक्ति वास्तविक कृषक होने चाहिए जिन के उदाहरण से दशकों की कृषि की प्रगतिशील पद्धतियां अपनाते की प्रेरणा मिल सके । इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में यथासम्भव अधिक से अधिक प्रगतिशील कृषकों को शामिल किया जाये । इस प्रकार के व्यक्तियों और नई प्रतिभा का पता करने में स्थानीय अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सूचना इस प्रकार है :-

(1) श्री एच० आर० सलूजा, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव (650—1200 रुपये) एम० ए० (इतिहास) । इनको ग्रामीण कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिछले 11 वर्षों से लगाया हुआ है । श्री सलूजा कृषक परिवार के हैं और इन्होंने आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन आस्ट्रेलिया से कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने में विशेषज्ञता प्राप्त की हुई है । इन्होंने अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कृषि संबंधी कार्यक्रमों की श्रेणियों में सर्वोत्तम कार्यक्रम तैयार करने के लिए नकद पुरस्कार और एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन इंटरनेशनल के दो पुरस्कार प्राप्त किए हैं । इन्होंने दूरदर्शन कृषि कार्यक्रम तैयार करने के विशेषज्ञ के रूप में विभिन्न कृषि सेमीनारों में भी भाग लिया है ।

(2) चौधरी रघुनाथ सिंह, प्रोड्यूसर (ग्रेड-2) (650—1200 रुपये) हरल इनस्टीट्यूट आफ जामिया मिलिया से ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा (स्नातक उपाधि के समकक्ष) । इन्होंने आकाशवाणी में फार्म रेडियो रिपोर्टर के

रूप में लगभग 5 वर्ष कार्य किया है । ये अक्टूबर, 1973 से दिल्ली दूरदर्शन में कृषि दर्शन कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं । ये कृषक परिवार से सम्बन्ध रखते हैं । इन्होंने अपना काम विस्तार अधिकारी, कृषि और पंचायत के रूप में शुरू किया था । इन्होंने भा. श्रौ. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे से दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने में प्रशिक्षण लिया है । इन्होंने विभिन्न कृषि सेमीनारों में भी भाग लिया है ।

(3) श्री एस० सी० बोस, प्रोड्यूसर (ग्रेड-2) (650—1200 रुपये) । इंटरमीडिएट ये दूरदर्शन के लिए 1959 से कार्य कर रहे हैं । इनको प्रोड्यूसर के रूप में 1975 में चुना गया था और ये 1976 से 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं । इन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे से दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने में प्रशिक्षण लिया है ।

### Setting up of Paper Mill in Tripura

3366. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any difficulties have cropped up in the matter of setting up of the Paper Mill in Tripura;

(b) if so, the details thereof and whether they include one relating to Iranian collaboration in the project; and

(c) what steps are being taken by Government to go ahead with the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). Although the Government of Iran had evinced interest in participating in the setting up of a paper/pulp project at Tripura, the terms of such participation have not yet been settled.

(c) A feasibility study has already been carried out. A final decision on the implementation of the project